#### TAVERNIER RESOURCES LIMITED

### REGISTERED OFFICE: PLOT NO- 42 CTS NO 1(PT), VILLAGE DEONAR, NEAR MAHESH PHARMA, ANCILLARY IND ESTATE, GOVANDI MUMBAI 400043

CIN: L51909MH1994PLC193901

Date: June 22, 2024

To,

#### **BSE Limited**

Listing Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

**Scrip Code:** 531190

<u>Subject</u>: : <u>Submission of public notice cum corrigendum to the Detailed Public Statement</u> (DPS) and Pre-Offer Advertisement in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations").

Ref.: Open Offer for the acquisition up to 15.54,540 Equity Shares of Tavernier Resources Limited ("Target Company") for an Offer Price of Rs. 16.50/- per Equity Share by Amit Vedawala ("Acquirer") ("Offer" or "Open Offer").

Dear Sir(s)/ Madam(s),

With reference to the above captioned subject, the public notice cum corrigendum to the DPS and Pre-Offer Advertisement is published on June 21, 2024, in the following newspapers:

| S. No. | Newspaper         | Language | Edition |  |
|--------|-------------------|----------|---------|--|
| 1.     | Financial Express | English  | All     |  |
| 2.     | Jansatta          | Hindi    | All     |  |
| 3.     | Navshakti         | Marathi  | Mumbai  |  |

Please find enclosed a copy of the public notice cum corrigendum to the DPS and Pre-Offer Advertisement published for your reference and records.

Thanking You. Yours Faithfully,

For and on behalf of TAVERNIER RESOURCES LIMITED

Sudhir Milapchand Naheta

Digitally signed by Sudhir Milapchand Naheta Date: 2024.06.22 11:14:52 +05'30'

Sudhir Milapchand Naheta Managing Director

DIN: 00297863

**Encl: As above** 

**FINANCIAL EXPRESS** 



Regd Off K-66, Fater Tiba, Adarsh Nagar, Jaigur- 302004 Phone 91-141-2601020, CIN: L36911/U1989PLC004945 Ernait investor relations@valbnavglobal.com; Website: www.valbhavglobal.com

#### NOTICE OF BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 91 of the Companie. Act. 2013 read with Rules made thereunder and in accordance with the SEBI Regulations, the register of members and share transfer books of the Company shall be closed on Saturday, 29" June, 2024 for the purpose of 35" Annual General Meeting and Payment of Final Dividend for FV 2023-24. The said dividend shall be gaid to the shareholder within 30 days from the date of declaration at ensuing AGM to be held on 1" August, 2024.

Securities and Exchange Board of India has stipulated that all listed companies shall use approved mode of payment viz direct credit, NEFT, RTG5, 'gayable-at-par' warrants/cheques etc. for the purpose of making payments to the shareholders. All the shareholders are requested to immediately update their Bank Account No., if the same has not been updated with the Company's share transfer agent or the depository participant, as the case may be

Please keep your updated email ID registered with the Company/Depository Participant to reteive timely communication

For Valbhay Global Limited

Place: Jaipur Sushil Sharma (Company Secretary) Date: 20" June, 2024

#### **VIPUL ORGANICS LIMITED** (CIN: L24110MH1972PLC015857)

Read. Off.: 102. Andheri Industrial Estate. Off. Veera Desai Road. Andheri (West). Mumbai - 400053 Corp. Off.: B 603-A, Kaledonia, Sahar Road, Off. W.E. Highway, Andheri (East), Mumbai - 400069 Telephone no. 022-66139999, Email Id: info@vipulorganics.com, Website: www.vipulorganics.com **POSTAL BALLOT NOTICE** 

(Pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014) Dear Member(s).

NOTICE is hereby given to the Members of Vipul Organics Limited ("Company") pursuant to provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI") and other applicable laws, rules and regulations read with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, and General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") that the resolution as set out hereunder are proposed to be passed as special resolutions through Postal Ballot process through voting by electronic means only ("Remote e-voting").

The proposed resolutions along with the explanatory statement, pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013, setting out the material facts and the reasons thereof, are annexed hereto

The Board of Directors of the Company has appointed CS Bhuwnesh Bansal, Proprietor of M/s. Bhuwnesh Bansal and Associates, Company Secretaries, Mumbai (FCS No.: 6526/CP No.: 9089) as scrutinizer for conducting the postal ballot process through remote e-voting in accordance with law in a fair and transparent manner. The Company has engaged the services of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), to provide remote e-voting facility. The procedure for remote e-voting is provided in the notes to this Postal Ballot notice. Members are requested to read the instructions in the notes so as to cast their vote electronically.

Only the members of the Company holding shares as on Friday, 14th June, 2024, i.e. the cut-off date, will be entitled to vote. The remote e-voting will commence on Friday, 21 June, 2024, at 9.00 A.M. (IST) and will end on Saturday, 20th July, 2024 at 5.00 P.M. (IST). For VIPUL ORGANICS LIMITED

Priya Shadija

**Company Secretary and Compliance Officer** 

Date: 20th June, 2024

Place: Mumbai

Membership No.: A72549

Loss of Share Certificates of

M/s Apollo Hospitals Enterprise Limited Secrolarial Department, Alt Towers, 3rd Floor, 55, Greams Road, Chennai - 600 006

Notice, is hereby given that share certificates for 600 equity shares of M/s. Apollo Hospitals Enterprise Limited, standing in my name and bearing the following

distinctive number have been lost by me. I request that Company to issue duplicate share.

Any person who has a claim for the said shares should lodge such claim to the company by writien communication addressed to M/s Apollo Hospitals Enterprise Limited Secretanal Department, All Towers, 3rd Floor, 55, Greams Road, Chennal - 600 006. within 15 days from the date of this nonce, after which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) as requested, by me without further information.

| Folio No. | Name of                                     | Share<br>Certificate |         |         | Quantity |
|-----------|---|----------------------|---------|---------|----------|
| rono no.  | the Shareholder                             | No                   | From    | To      | Quantity |
| 8674      | SHRAVAGE C T<br>DR J C SHRAVAGE<br>(DEMISE) | 358677               | 7539011 | 7539610 | 600      |

SHRAVAGE C T Place: BELGAUM DR J C SHRAVAGE (DEMISE) Date: 20/06/2024

AHMED NAWAZ ALLADIN (PAN ABQPA4334A), holding 4 shares of Face Value Rs. 100/- in Bosch Limited (formerly: Motor Industries Company Limited) having its registered office at Hosur Road, Adugodi, Bangalore 560030 in Folio A01240 bearing Share Certificate Numbers 10003751 10003752, 10005160 and 10005161 with Distinctive Numbers from 1633340 1633340. 1633341 - 1633341, 2952621 2952621 and 2952622-2952622.

hereby give notice that the said Share Certificate(s) are lost and I have applied to the Company for issue of duplicate Share Certificates. and exchange of the same with Face Value Rs 10)-certificate. The public is hereby warned against burchasing or dealing in anyway with the said Share Certificates

Certificates if no objection is received by the Company within 30 days of the publication of this advertisement, after which no claim will be entertained by the Company in that behalf. AHMED NAWAZ ALLADIN

The Company may issue duplicate Share

Place: Hyderabad Date : 21.06.2024 Folio No : A01240

# TAVERNIER RESOURCES LIMITED

Name of the Holder:

Registered Office: Plot No- 42 CTS No 1(Pt), Village Deonar, Near Mahesh Pharma, Ancillary Ind Estate, Govandi, Mumbai - 400043 | CIN: L51909MH1994PLC193901 Contact: 8879382912 | E-mail ID: lavernier resources@gmail.com

PUBLIC NOTICE CUM CORRIGENOUM TO THE DPS AND PRE-OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 15,54,540 EQUITY SHARES REPRESENTING 26.00% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED, BY THE ACQUIRER PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER") This public notice ("Notice") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited, the Manager to the offer ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer.

 This is to bring to the notice of Public Shareholders that the dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders of Tavernier. Resources Limited was completed on June 06, 2024, through small and speed post. These Public Shareholders who have not received the Letter of Offer through email or speed post may download the same from website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of BSE at www.bseindia.com or website of the Manager to the Offer at www.vivro.net. The date of Public Announcement mentioned at point no. VIII (Tentative Schedule of Activity) of the DPS, Page 2 (Schedule

of Major Activities of the Offer) of the DLOF and in the first paragraph and at point no. 8 (Schedule of Activities) in the Pre-offer Advertisement which was published in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Navshakti (Marathi) (Mumbai Edition) on Thursday, June 13, 2024 should be read as February 23, 2024 instead of February 23, 2023.

3. Public Shareholder having any quenes regarding Open Offer or for requirement of physical copy of LOF may contact Registrar to the Offer or Manager to the Offer.

Registrar to the Offer

Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Maharashtra, India. | Tel. No.: +91-8108114949 Email: tavernier.offer@linkintime.co.in | Website: www.linkintime.co.in SEBI Reg. No.: INRO00004058 | Contact Person: Pradnya Karanjekar

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

Vivra Financial Services Private Limited Address: Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi. Ahmedabad - 380007, Gujarat, India. | Tel No.: 079-4040 4242 Website: www.vivro.net | Email: Investors@vivro.net

SEBI Reg. No. MB/INM000010122 | Contact Person: Shivam Patel Capitalized terms used but not defined in this public notice shall have the meaning assigned to such terms in the LQF

Date: June 20, 2024 Amil Vedawala Place: New Jersey, USA

This is only an advertisement for information purpose and does not constitute an offer document announcement or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. Not for publication, distribution, or release, directly or indirectly into the United States of America or otherwise Outside India.



# DSJ KEEP LEARNING LIMITED

Our Company was incorporated as "Dalal Street Communications Private Limited" on November 21, 1989, under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Mumbai. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Dalal Street Communications Limited" vide special resolution dated March 22, 1994 and a fresh certificate of incorporation consequent to the conversion was granted to our Company on June 14, 1994, by the Registrar of Companies, Mumbai. Subsequently, our Company changed its name to 'DSJ Communications Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent to the name change was granted to our Company on July 14, 1995, by the Registrar of Companies, Mumbai. Further, our Company's name was again changed to 'DSJ Keep Learning Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent to the name change was granted to our Company on June 29, 2021, by the Registrar of Companies, Mumbai. For details, please refer to "General Information" on page 38 of the Letter of Offer.

Registered Office: 419-A, Arun Chambers, 4th Floor, Tardeo, Mumbai City, Mumbai - 400 034, Maharashtra, India Contact person: Jaiprakash Laxmandas Gangwani, Company Secretary & Compliance Officer Telephone: 022 4002 3127 | E-mail id: compliance@dsjkeeplearning.com | Website: https://dsjkeeplearning.com/ Corporate Identity Number: L80100MH1989PLC054329

#### PROMOTERS OF OUR COMPANY: NEW BONANZA IMPEX PRIVATE LIMITED, SANJAY VIJAYSINGH PADODE, RAJESH VIJAY PADODE AND PRATAP VIJAY PADODE

ISSUE OF 6.81.24.036 FULLY PAID UP EOUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EOUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹1 PER EOUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹681.24 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 7 EQUITY SHARE FOR EVERY 9 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS MAY 14, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 145.

# **BASIS OF ALLOTMENT**

The Board of Directors of DSJ Keep Learning Limited wishes to thank all its members and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Wednesday, May 29, 2024 and closed on Thursday, June 06, 2024. The last date for on market renunciation of Rights Entitlement was Monday, June 03, 2024. Out of a total of 1,566 applications received for 14,18,47,847 Equity Shares, 7 Applications received for 2,11,554 Equity Shares were rejected due to duplicate bid entries. The total number of valid applications received including direct application against loan conversion were 1,560 Applications for 16,06,36,293 Equity Shares aggregating to ₹ 16,06,36,293 which was 235.80% of the issue size.

In accordance with the Basis of Allotment finalized on June 13, 2024, in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on June 14, 2024 allotted 6,81,24,036 Equity Shares to the successful applicants. All valid applications have been considered for Allotment.

# 1. Basis of Allotment:

| Category                     | No. of valid CAFs (including ASBA applications) received | No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A) | No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B) | Total Rights Equity Shares Accepted and<br>Allotted (A+B) |  |
|------------------------------|--|--|---|---|--|
| Direct                       | 1  | 66,16,203  | 1,23,83,797   | 1,90,00,000   |  |
| Eligible Equity Shareholders | Eligible Equity Shareholders 1,085                       |  | 3,13,05,118   | 4,73,25,528<br>17,98,508                                  |  |
| Renouncees 79 Total 1,165    |  | 17,98,508  | 0   |   |  |
|                              |  | 2,44,35,121  | 4,36,88,915   | 6,81,24,036   |  |

2. Information regarding Applications received (including ASBA applications received):

| Catagory                     | Application | Applications Received |              | <b>Equity Shares Applied for</b> |        |             | Equity Shares allotted |        |  |
|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------|-------------|------------------------|--------|--|
| Category                     | Number      | %                     | Number       | Value (Rs.)                      | %      | Number      | Value (Rs.)            | %      |  |
| Direct                       |             | 0.06                  | 1,90,00,000  | 1,90,00,000                      | 11.83  | 1,90,00,000 | 1,90,00,000            | 27.89  |  |
| Eligible Equity Shareholders | 1480        | 94.87                 | 13,10,57,119 | 13,10,57,119                     | 81.59  | 4,73,25,528 | 4,73,25,528            | 69.47  |  |
| Renouncees                   | 79          | 5.06                  | 1,05,79,174  | 1,05,79,174                      | 6.59   | 17,98,508   | 17,98,508              | 2.64   |  |
| Total                        | 1560        | 100.00                | 16,06,36,293 | 16,06,36,293                     | 100.00 | 6,81,24,036 | 6,81,24,036            | 100.00 |  |

# **Fractional Entitlements**

Place: Mumbai

**Date:** June 20, 2024

The Equity Shares are being offered on a rights basis to existing Eligible Equity Shareholders in the ratio of 7 Equity Shares for every 9 Fully Paid-up Equity Shares held as on the Record Date on May 14, 2024. As per SEBI Rights Issue Circulars, the fractional entitlements are to be ignored.

timation for allotment/ refund/ rejections cases: The dispatch of Allotment Advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors by e-mail only have been completed on June 19, 2024. The instruction to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Applicants were given on June 13, 2024.

The Company has filed the listing application with BSE and NSE seeking permission for listing of equity shares issued on Rights Basis on June 14, 2024. The listing application filed by the Company has been approved by BSE and NSE vide their letter no. LOD/RIGHT/AB/FIP/428/24-25 and NSE/LIST/42245 dated June 14, 2024 and June 18, 2024 respectively. The Company received the approval for trading of 6,81,24,036 equity shares from BSE and NSE vide letter LOD/RIGHTS/SV/253/2024-25 and NSE/LIST/2024/42316 respectively on June 19, 2024 and the trading commenced from June 20, 2024 on BSE and NSE.

Credit of equity shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on June 19, 2024. For further details, see "Terms of the Issue – Allotment Advices/Refund Orders/ Unblocking of ASBA Accounts" on page 171 of the Letter of Offer. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on June INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THIS RIGHTS ISSUE SHALL HAVE THE SAME ISIN (I.E. INE055C01020) AS THE EXISTING LISTED EQUITY SHARES.

EQUITY SHARES ONLY AFTER ASCERTAINING THAT TRADING APPROVAL HAS BEEN ISSUED AND NOTIFIED BY BSE. THIS INFORMATION WOULD ALSO BE POSTED ON THE WEBSITE OF THE STOCK EXCHANGES. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM. DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the Issue is not exceeding ₹ 5,000 Lakhs. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Other Regulatory and Statutory Disclosures – Disclaimer Clause of SEBI" on page 139 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of the BSE" on page 140 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of the NSE" on page 140 of the Letter of Offer.

All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the Letter of Offer dated May 13, 2024. Any correspondence in respect of allotment of Rights Equity Shares pertaining to the Issue may be addressed to the Registrar to the Issue at the address mentioned below

# REGISTRAR TO THE ISSUE



# **Link Intime India Private Limited**

C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West Mumbai-400083, Maharashtra, India Tel: +91 810 811 4949

E-mail: keeplearning.rights2024@linkintime.co.in Investor Grievance ID: keeplearning.rights2024@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

a copy to the SCSBs, giving full details such as name, address of the applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked., ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs, where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip . For details on the ASBA, see "Terms of the Issue" on page 145 of the Letter of Offer.

Investors may contact the Registrar or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with

For DSJ KEEP LEARNING LIMITED

Jaiprakash Laxmandas Gangwani



### **TRUST Asset Management Private Limited** CIN: U65929MH2017PTC302677

Regd. Office: 101, 1º Floor, Naman Corporate Link, G - Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 | Phone: 022 - 6274 6000; 1800 267 7878 (Toll-Free No.) E-mail: investor.service@trustmf.com | Website: www.trustmf.com

### Notice cum Addendum No. 38/ 2024

Declaration of Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') option of TRUSTMF Banking & PSU Fund and TRUSTMF Short Duration Fund

NOTICE is hereby given that the Board of Directors of Trust AMC Trustee Private Limited, the Trustee to TRUST Mutual Fund ('the Fund') has approved the declaration of Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') option of TRUSTMF Banking & PSU Fund and TRUSTMF Short Duartion Fund ('the Schemes'), the particulars of which are as under:

| Name<br>of the<br>Scheme | Plan/ Option  | Face<br>Value<br>(₹ per<br>Unit) | Quantum<br>of IDCW<br>(₹ per<br>unit)* | Record<br>Date*  | NAV as on<br>June 19,<br>2024<br>(₹ per unit) |
|--------------------------|---|----------------------------------|--|------------------|---|
| TRUSTMF<br>Banking       | Direct Plan – Quarterly IDCW Option (Payout and Reinvestment)     |                                  | ğ                                      | June 25,<br>2024 | 1100.4565                                     |
| & PSU<br>Fund            | Regular Plan – Quarterly IDCW<br>Option (Payout and Reinvestment) | 1000                             |  |                  | 1082,6212                                     |
| TRUSTMF<br>Short         | Direct Plan - Quarterly IDCW<br>Option (Payout and Reinvestment)  | 1000                             |  |                  | 1088.7778                                     |
| Duration<br>Fund         | Regular Plan – Quarterly IDCW<br>Option (Payout and Reinvestment) |                                  |  |                  | 1072.5396                                     |

As reduced by the amount of applicable statutory levy, if any

\*or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above stated IDCW options of the scheme(s)/plan(s) would fall to the extent of pay-out and statutory levy, if any.

The Distribution would be paid to unitholders/beneficial owners under the said scheme/plan(s) whose names appear in the Register of Unitholders maintained by the RTA/statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable at the close of business hours as on the record date. The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

Unitholders/Investors are requested to take note of the above.

For TRUST Asset Management Private Limited (Investment Manager to TRUST Mutual Fund)

Sd/-**Authorised Signatory**  Place: Mumbai Date : June 20, 2024

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



POONAWALLA FINCORP LIMITED

CIN: L51504PN1978PLC209007 Registered Office: 201 and 202, 2nd Floor, AP81, Koregaon Park Annex, Mundhwa, Pune - 411036; Phone: 020-67808090

Website: www.poonawallafincorp.com: Email: secretarial@poonawallafincorp.com

# NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 44th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 44th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Poonawalla Fincorp Limited ("the Company") will be held on Tuesday, July 23, 2024 at 02:00 P.M. through Video - Conferencing ("VC") /Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 97, 2023 ("SEBI Circulars") has provided certain relaxation from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. ("SEBI Listing Regulations").

In compliance with the said MCA Circulars and SEBI Circulars and the SEBI Listing Regulations as amended, the Notice of 44th AGM and Annual Report for FY 2023-24 shall be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Depositories/ Company's Registrar Share Transfer Agent ("RTA") and will be made available on the Company's website at (www.poonawallafincorp.com) and websites of the National Stock Exchange of India. Limited (www.nseindia.com) and website of the BSE Limited (www.bseindia.com), where the equity shares of the Company are listed. Pursuant to above circulars, physical copies of the Annual Report for financial year 2023-24 will be sent only to those Members who specifically request for the same.

# Remote E-Voting:

Member can attend and participate in AGM only through VC/OAVM facility. The detailed instructions pertaining to remote e-voting and e-voting on the AGM Day will be provided in the Notice of the AGM.

Manner of Registering/ updating of e-mail addresses:

In case Members have not registered/updated their email address with the Depositories/RTA kindly follow the below instructions to enable the Company to provide you with a copy of Notice of AGM and Annual Report and to participate and vote in Resolutions.

Instructions to register/update the E-mail ID:

| Physical Holding | Members are requested to register / update the same by submitting duly filled and signed Form ISR-1 with the RTA i.e. Link Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@linkintime.co.in |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| Demat Holding    | Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address.   |  |  |  |

In case of any queries/difficulties in registering the e-mail address. Members may write to

secretarial@poonawallafincorp.com Manner of casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM:

The Company will be providing remote e-voting facility and e-voting facility at the AGM to its

Members holding shares as on the cut-off date i.e Tuesday, July 16, 2024, to cast their votes on the business that will be set forth in the Notice of AGM.

### Transfer to Investor Education and Protection Fund ("IEPF"): Equity shareholders are requested to claim their unclaimed/unpaid dividend if any, for the financial

years 2016-17 to 2022-23 by logging their request with our RTA on or before August 28, 2024 to avoid the transfer of the same to IEPF. **Book Closure Notice:** 

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, Notice is hereby given that the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, July 17, 2024, to Tuesday, July 23, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

#### Reminder to update KYC details: For Members holding shares in physical mode, in terms of SEBI mandate, the security holders

(holding securities in physical form), whose folio(s) do not have PAN or Choice of Nomination or Contact Details or Mobile Number or Bank Account Details or Specimen Signature updated, shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. Physical securityholders are requested to submit their PAN, KYC details including Bank details and Nomination details to our RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in for immediate action. A copy of such forms can be downloaded from the website of the Company at www.poonawallafincorp.com or from the website of our RTA at https://www.linkintime.co.in → Resources → Downloads → KYC → Formats for KYC. In view of the said SEBI mandate, we urge Members holding shares in physical form to submit the required forms along with the supporting documents at the earliest.

#### Registered Office: 201 and 202, 2nd floor, AP 81.

Koregaon Park Annex, Mundhwa, Pune - 411 036, Maharashtra.

For Poonawalla Fincorp Limited Shabnum Zaman Company Secretary ACS No. 13918

Yours faithfully.

Date : June 21, 2024

Company Secretary & Compliance Officer

financialexp.epapr.in

विनाकः २०.०६.२०२४, स्थानः सीतापुर

जनसता

21 जून, 2024

आवास फाइनेसियसे टि ( पूर्व में "ए य हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से जात ) (CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउध एंड स्क्वायर, मानसरोचर इंडस्टीयल एरिया, जयपर-302020

कब्जा नोटिस जबकि अधांहरनाक्षरकर्ता **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड ( पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड '' के नाम से ज्ञात )** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गदन और प्रतिभृति हिन प्रवर्तन अधिनियम 2002 '' की धारा 13( 12 ) और सहपठित प्रतिभृति हित ( प्रवर्तन ) नियम के नियम 0 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋषियों को मांग सबना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दशांए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की माँग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अत: ऋणीयों तथा आम जनता को मुखना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 1.3( 4 ) सहपठित निचम 9 के निचमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई भई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्ट या तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार पहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दशाई गई बकाया राशि तथा उन पर व्याज व खर्चों के लिए आवास फाईनेंस आवास फाइनेंसियरी लिमिटेड( पूर्व में '' ए यू हार्डिसंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से झात ) के प्रभार के अध्यक्षीन होगा ।

| ऋणी का नाम   | बारा 13 (2) के अन्तर्गत<br>नोटिस की दिनांक व राशि          | बंधक संपत्ति का विवरण   | कब्जे की तारीख<br>एवं प्रकार         |
|--|--|---|--------------------------------------|
| शकुन्तला शकुन्तला, गिरिराज प्रसाद<br>उपाध्याय, श्री शिव कुमार उपाध्याय, श्री<br>राम बल्लम उपाध्याय, श्री महेश कुमार<br>उपाध्याय<br>खाता सं. LNMTR02918-190096273 | 19 फरवरी 2024<br>र 2678764/- बकाया<br>दिनांक 19 फरवरी 2024 | प्लाट मं, 41, श्री राधा गार्डन कॉलोनी, खसरा नं. 171<br>व 168/2, मौजा बाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा,<br>उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर | भौतिक<br>कब्जा दिनांक<br>19 जून 2024 |
| स्थान : जयपुर दिनांक :   | 21-06-2024   | प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनी  | संवर्स लिमिटंड                       |

|   | स्मर्चेन भवन, सीतापुर, इ.प्र261001   | (अचल सम्पत्ति हेतु   |
|---|--|--|
| ंग) नियम 2002 के नियम 3 के अती<br>मांग नोटिस की तिथि ने 60 दिनों के<br>बकाया धनखरि का भुगतान करने में<br>तर्गत प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग कर<br>पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है।<br>म की धारा 13 की उपधारा (8) के उप<br>स्तियों के समान्ध में किसी मी प्रकार | न प्रदात शकितयों के प्रयोग में में<br>मीतर नोटिस में वाणित धनरार्ड<br>असफल रहने पर, प्रतिभूति हित<br>ते हुए एतदद्वारा ऋणियाँ / स्व<br>ऋणियाँ / जमानतकर्ताओं /<br>बन्धों की ओर साकृष्ट किया ज<br>का संख्यवहार में करने के लिए   | निवं दियं गयं विवरण कं अनुसा<br>ते का भुगतान वैक का करने कें<br>(प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम<br>शरकर्ता और आम लोगों को का<br>बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभू<br>ता है। अधियों को विशेष ल |
| प्रभारित / बंधक / वृ<br>परिसम्पत्ति (परिसम  | ष्टिबंधक की गर्ड<br>पत्ति से संबंधित   | (अ)मांग नोटिस की तिथि<br>(ब)सांकेतिक कब्जा की तिथि<br>(स) मांग नोटिस के दिन<br>तक बकस्या शेष   |
| मूमि संख्या 579 जो कि मकान<br>तों), मोहल्ला सुनाय नगर (नगर<br>पैयों)<br>वागर तहसील एव जिला हरहें<br>पैयों)<br>1307 दिनांक 66.02.2013 के र<br>गर, श्री विनोद कुमार बाजपेयी के  | न संख्या 229 का उत्तरी भाग<br>पालिका के अन्तर्गत) परगन<br>हैंडू जोकि विक्रय विलेख क्रमांट<br>अनुसार श्रीमती विद्या देवी पर<br>नाम जंग निबन्धक कार्याल  | (a) 17.02.2024<br>(a) 15.06.2024<br>(v) % 9,10,197.00<br>(रा) % 9,10,197.00<br>(रा) % 9,10,197.00  |
|   | स अधिकारी है. द्वारा दिलीय अस्तिय<br>हो अधिकारी है. द्वारा दिलीय अस्तिय<br>हो नियम 2002 के नियम 3 के अही<br>होग जीटिस की तिथि ने 60 दिनों के<br>बकाया धनस्वीर का भुगतान करने में<br>तर्गत प्रदस्त शांकितयों का प्रयोग कर्र<br>पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है।<br>व की धारा 13 की उपधारा (8) के उप<br>दिल्यों के सम्मन्ध में फिली भी प्रकार<br>स्थीवाणित प्रभारी व देय ब्याज / खब<br>प्रमारित / बंधक / वृ<br>परिसम्पत्ति (परिसम्<br>सभी माग व एवं हिर<br>व्यापालीय मकान ही, 900 वर्ग<br>भूमि संस्था 579 जो कि मकान<br>वेयी वागर तहसील एव जिला हरदे<br>वेयी 1307 दिनांक 96.02.2013 के न्यार<br>गर, श्री विनोद कुमार बाजपेयी वे |  |

# TAVERNIER RESOURCES LIMITED

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

Registered Office: Plot No- 42 CTS No 1(Pt), Village Deonar, Near Mahesh Pharma Ancillary Ind Estate, Govandi, Mumbai - 400043 | CIN: L51909MH1994PLC193901 Contact: 8879382912 | E-mail ID: tavernier.resources@gmail.com

PUBLIC NOTICE CUM CORRIGENDUM TO THE DPS AND PRE-OFFER ADVERTISEMENT FOR

THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 15,54,540 EQUITY SHARES REPRESENTING 26.00% OF THE EQUITY SHARI CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED, BY THE ACQUIRER PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER") This public notice ("Notice") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited, the Manager to the offer ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer.

 This is to bring to the notice of Public Shareholders that the dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders of Tavernie Resources Limited was completed on June 06, 2024, through email and speed post. Those Public Shareholders who have not received the Letter of Offer through email or speed post may download the same from website of SEBI at www.sebi.gov.in website of BSE at www.bseindia.com or website of the Manager to the Offer at www.vivro.net.

. The date of Public Announcement mentioned at point no. VIII (Tentative Schedule of Activity) of the DPS, Page 2 (Schedule of Major Activities of the Offer) of the DLOF and in the first paragraph and at point no. 8 (Schedule of Activities) in the Pre-offer Advertisement which was published in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Navshakti (Marathi) (Mumbai Edition) on Thursday, June 13, 2024 should be read as February 23, 2024 instead of February 23, 2023.

3. Public Shareholder having any queries regarding Open Offer or for requirement of physical copy of LOF may contact

| Registrar to the Offer or Mar | nager to the Offer.  Registrar to the Offer   |
|-------------------------------|---|
| <b>L</b> iNKIntime            | Link Intime India Private Limited   |
|                               | Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer  |
| VIVRO                         | Vivro Financial Services Private Limited  Address: Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India.   Tel No.: 079-4040 4242  Website: www.vivro.net   Email: Investors@vivro.net  SEBI Reg. No. MB/INIM000010122   Contact Person: Shivam Patel |

Date: June 20, 2024

Capitalized terms used but not defined in this public notice shall have the meaning assigned to such terms in the LOF.

दिनांकः 20-06-2024, स्थानः गानियाबाद

Place: New Jersey, USA Amit Vedawala





बैंक ऑफ बडौदा हापुड़ शाखा, त्रिवेणी गंज, हापुड़, गाजियाबाद

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

उ.प्र.-245101 अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतू बिक्री सूचना-परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान देखें] प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) तथा 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण

के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित खाते(तों) में बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ है वही है'' आधार पर क जायेगी। कर्जदार(रों)/ बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों)/प्रतिभृत आस्ति(यों)/बकायों/आरक्षित मृल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा संविदा वृद्धि राशि निम्नलिखित वर्णित हैं।

| क्र.<br>स | कर्जदार∕रों∕जमानती∕<br>बंधककर्ता<br>का नाम एवं पता   | ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो,<br>सहित अचल स्पत्ति<br>का विवरण   | कुल<br>बकाया  | ई-नीलामी की<br>तिथि एवं<br>समय                         | आरक्षित मूल्य<br>ईएमडी<br>संविदा वृद्धि राशि   | कब्जे की<br>स्थिति | सम्पत्ति के<br>निरीक्षण की<br>तिथि एवं समय                   | शाखा का<br>नाम तथा<br>सम्पर्क नं. |
|-----------|--|--|---|--|--|--------------------|--|-----------------------------------|
|           | कर्जदार : श्री अमरदीप कुमार पुत्र श्री गजय सिंह<br>पताः मकान नंबर 44, पटना मुरादपुर, गुलशन<br>पब्लिक स्कूल के पास, नई मंडी, गढ़ रोड, हापुड़<br>(यूपी) – 245101 | पताः संपत्ति संख्या 11, खसरा नंबर<br>544, क्षेत्रफल 114.84 वर्ग मीटर,<br>ग्राम डोमी में स्थित, ग्रीन पार्क<br>कॉलोनी के पास, जरोठी रोड, जिला<br>हापुड़, उत्तर प्रदेश- 245101, श्री<br>अमरदीप कुमार पुत्र श्री गजय सिंह<br>के नाम पर। | 13.01.2024 तक रु. 15,07,307.72/- (पंद्रह लाख सात हजार तीन सौ सात रुपये और बहत्तर पैसा मात्र) तथा उस पर अप्रयुक्त और अनसर्विस्ड ब्याज और अन्य शुल्क। | 23.07.2024<br>समय 02.00 बजे<br>अप. से 06.00 बजे<br>अप. | ₹. 38,00,000/-<br>₹. 3,80,000/-<br>₹. 10,000/- | सांकेतिक           | 16.07.2024<br>तथा<br>10.00 बजे<br>पूर्वा. से 2.00<br>बजे अप. | हापुड़ शाखा/<br>8929163235        |

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm तथा https://ibapi.in में प्रावधानित लिंक देखें। साथ ही, सम्भावित संविदाकार अधिकारी प्राधिकारी से उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

थि : 20.06.2024 स्थान : गाजियाबाद

अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौद

बैंक ऑफ बड़ौदा मुरादनगर शाखा, वार्ड नं. 14, मेन रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद यूपी-245101

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना - परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) एवं 8(6) के प्रावधान देखें] प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) तथा 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों र्क बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सुचना

एतद्वारा सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित खाते(तों) में बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ है वही है" आधार पर की जायेगी। कर्जदार(रों) बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों)/प्रतिभृत आस्ति(यों)/बकायों/आरक्षित मुल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा संविदा वृद्धि राशि निम्नलिखित वर्णित हैं:

| Б.<br>₹. | कर्जदार∕रों∕जमानती∕बंधककर्ता का<br>नाम एवं पता | ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित अचल<br>स्पत्ति का विवरण   | कुल बकाया   | ई-नीलामी की तिथि<br>एवं समय                            | आरक्षित मूल्य<br>ईएमडी<br>संविदा वृद्धि राशि   | कब्जे की<br>स्थिति | सम्पत्ति के<br>निरीक्षण की<br>तिथि एवं समय                   | शाखा का नाम<br>तथा सम्पर्क नं.  |
|----------|--|---|---|--|--|--------------------|--|---------------------------------|
| 1        | चंद्र शर्मा सह-कर्जदारः श्रीमती आशा            | पताः श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री सुभाष चंद शर्मा और<br>श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा के नाम पर<br>मोहल्ला महजनान, पुराना राम लीला मैदान, कस्बा<br>मुरादनगर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद,<br>उत्तर प्रदेश- 201206 में स्थित नगर पालिका हाउस<br>नंबर 329 (पुराना नंबर 163) नाम आवासीय फ्री<br>होल्ड संपत्ति का हिस्सा। | रु. 11,48,078.23/-<br>(ग्यारह लाख अड़तालीस<br>हजार अठहत्तर रुपये और<br>तेईस पैसे मात्र) तथा उस पर | 23.07.2024<br>समय 02.00 बजे<br>अप. से 06.00 बजे<br>अप. | ক. 28,64,000/-<br>ক. 2,86,400/-<br>ক. 10,000/- | भौतिक              | 16.07.2024<br>तथा<br>10.00 बजे<br>पूर्वा. से 2.00<br>बजे अप. | मुरादनगर<br>शाखा/<br>8929163246 |

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm तथा https://ibapi.in में प्रावधानित लिंक देखें। साथ ही, सम्भावित संविदाकार अधिकारी प्राधिकारी से उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

OSBI

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-।

प्रथम तल, 23, गजफगढ़ रोइ, गई दिल्ली-110015, फोग: 25419177, 25412977 ई-मेल: sbi.05169@sbi.co.in परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल / अघल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय मोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्यामृति – दाता को यह मोटिस दिया जाता है कि मीचे वर्णित **चल/अचल** सम्पत्तियां जो प्रतिमृत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रमारित हैं, का कब्जा, (प्रतिमृत लेनदार) के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों / गार्रटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसली हेत नीचे वर्णित विनाकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य और अग्रिम घनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

| क्र.<br>सं. | कर्जदार(बी) / गारंटर(रॉ)(जी)<br>का नाम एवं पता   | नीलामी के अधीन<br>आवृत्त प्रभारित प्रतिमृति का पता<br>(सम्पत्ति का भौतिक/<br>सांकेतिक कब्जा)   | आरक्षित मूल्य<br>घरोहर राशि (आरक्षित<br>मूल्य का 10%)<br>वृद्धि राशि | बकाया राशियां<br>जिसकी वसूली<br>हेतु सम्पत्ति<br>बेसी जा रही है | SHIPS 22              | ई-नीलामी की तिथि<br>प्रत्येक 10 मिनट के<br>असीमित विस्तार<br>के साथ | सम्पत्ति का<br>स्थल पर निरीक्षण<br>करने हेतु<br>तिथि एवं समयः |
|-------------|--|--|--|---|-----------------------|---|---|
| 1           |  | सास्थिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति, मकान  |  | ₹ 25,90,279/-   | 2017-01-1-1           | पूर्वा. 10.00 बजे से<br>अर्पा. 04.00 बजे तक                         | 12-07-2024  |
|             | 396 / 7 पुराना 343 / 12 जवाहर नगर, गुरूगान –122001   | नं. ३४३ / १२ (ओल्ड), ३९६ / ७ (नया) क   | A. 618 W. 21120  | विनांक 12,10,2017<br>तक और भविष्य का                            |                       |   | अर्णेह 02.00 बजे<br>से अपिह 04.00<br>बजे तक                   |
|             | Contract of the Contract of th | भाग, क्षेत्रफल 72 वर्ग गज, जोकि ज्वाहार<br>नगर (पूर्व में जिसे जयरामपुरा कहते हैं)<br>गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित<br>(सांकेतिक कब्जा बैंक के पास हैं () | ₹ 1.00 लाख   | ध्याज एवं प्रभार  | The state of the same |   |   |

ई-नीलामी हेत् नियम व शर्ते:-

। ई-नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक वेबपोर्टल https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई-नीलामी बोली प्रपन्न, घोषणापन्न, समान्य नियम व शर्ते आदि निविदा दस्तावेज ibapi के ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उपलब्ध है

2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं झान के अनुसार सम्पत्ति(याँ) पर कोई प्रभार नहीं है। तथापि इच्छक बोलीदाता(ओं) को, ऋणमार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(याँ) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(याँ) को प्रभावित करने वाले दावों 🗸 अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी वाहिए। ई-नीलामी विद्वापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वधनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा । सम्पत्ति(यो) की बिक्री बैंक को ज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारों / ऋणभारों के साथ की जा रही है । प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभृत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावाँ / अधिकारों / यकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

3. इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री-बिंड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भूगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वंबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें। यह ई─नींलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुर्निर्नाण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायंगी।

ई- मीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों https://ibapi.in पर प्रकाशित की गई है।

ध्यान दें: उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को 15 / 30 दिनों की बिक्री नोटिस पूर्व ही पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दी गई है। यदि ऐसी पार्टी / पार्टियों को यह नहीं मिला है, तो इस नोटिस को इन सभी प्रक्षों के लिए सेवा का वैकल्पिक तरीका माना जा सकता है।

दिनाक 20-06-2024 स्थान : नई दिल्ली हस्ता०/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब मैशनल बैंक punjab national bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon! ...... भरोसे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केज-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001, मो. : 9971720088, ई-मेल: cs8228@pnb.co.in अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गास्टर्स की यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, की "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नेवा जाएगा। बकाया राशि की वसूली. कर्जदार(रॉ) और गारंटर(रॉ), आरक्षित मुल्य और घरोडर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रचाराज परिवासिकों की विकी की अनुसकी

|    | प्रदेशिकार गास्टर (हो) बारायस जैंदन बार मराष्ट्रर साथ का सनस्था साम दो नई सालामा के ह   |  | प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची   |                                     |   |                                 |
|----|---|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 市. | शाखा का नाम<br>खाते का नाम  | (E) सरफासी अधिनियम 2002 की घारा 13(2) के<br>अंतर्गत मांग सूचना की तिथि<br>(F) सरकासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि | अचल सम्पत्तियों का विवरण —   | (A) आरक्षित मूल्य                   | नीलामी<br>की                                  | प्रतिभूति लेनव<br>के संज्ञान मे |
| r. |   | (G) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि  | बंधक / स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)  | (B) ईएमडी                           | तिथि एवं                                      | ऋण भारों                        |
|    | कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता  | (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक  |  |                                     | शे समय  | का विवरण                        |
| 1  | शाखाः गोविंदपुरी (601100)   | (E) 15/11/2021   | साम्यिक बंधक खसरा नं. 874 गाँव रोड़ी मोह कृष्णा पुरी लाईन पर गोविन्दपुरी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रवि शंकर पालीवाल के नाम पर है। क्षेत्रफल 209.02 वर्ग  | (A) ক. 42.58 লাভা                   | 23-07-2024<br>पूर्वांक 11.00<br>बजे से अपांक  | ज्ञात नहीं                      |
|    | मैसर्स ताना बाना, खसरा नं. 874 गांव रोरी मोह कृष्णा पुरी लाइन पर गोविंदपुरी<br>श्री रवि शंकर पालीवाल (प्रोप. ताना बाना) श्रीमती संतोष पालीवाल पत्नी श्री रवि शंकर<br>पालीवाल, (गारंटर)  | (F) 02/11/2022   | मी., चौहरी पूरव में – खुला प्लॉट 132, पश्चिम में – खुला प्लॉट 130, उत्तर में – खुला प्लॉट 122, दक्षिण में – रोड  | (B) ক. 4.26 লাজ                     |   |                                 |
| }  |   | (G) रु. 18.93 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि   |  |                                     | वजे से अपीह<br>04.00 वजे                      |                                 |
|    |   | (H) सांकेतिक   |  |                                     |   |                                 |
|    | शा.का. : जी.टी. रोड (०१८०००)  | (E) 14-07-2013   | आवासीय प्लॉट नंबर 5/334, सेक्टर-5, दूसरी मंजिल (छत के अधिकार के साथ) का इक्विटेबल बंधक, वसुंधरा गाजियाबाद, माप क्षेत्र 40.00   |                                     | 23-07-2024                                    | ज्ञात नहीं                      |
| ١  | श्री रामजी दुवे पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण दुवे<br>तीसरी मंजिल, ए-31, रचना वैशाली, गाजियाबाद.  | (F) 21-09-2023   | वर्ग मीटर श्री राम जी दुवे पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण दुवे के नाम पर  | (B) ফ. 2.30 লাख                     | पूर्वीह्न 11.00<br>बजे से अर्पीह<br>04.00 बजे |                                 |
| 1  |   | (G) रु. 44.92 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यावि   |  | (C) ₹ 25,000/-                      |   |                                 |
|    |   | (H) सांकेतिक   |  | (0) (0 23,000)-                     |   |                                 |
|    | शाखाः जी टी रोड (018000)  | (E) 04/04/2016   | साम्यिक बंधक रिहायशी मकान डीडीए एलआईजी फ्लैट नं, 14, तृतीय तल, कुण्डली घरौली और जिसे अब मयूर विहार कहते हैं. फेज-111, दिल्ली - 110096 में  |                                     | 23-07-2024                                    | ज्ञात नहीं                      |
| 1  | श्री ओम कुमार पुत्र श्री विक्रम सिंह, श्रीमती अर्चना देवी पत्नी ओम कुमार (उधारकर्ता), श्री<br>संदीप चौहान पुत्र बृज पाल चौहान (गारंटर)  | (F) 06/07/2016   | रिधत, क्षेत्रफल 28 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री औम कुमार और श्रीमती अर्चना देवी के नाम पर है। व्यवद्या में — प्लॉट न, 453 पश्चिम में — 34 फीट व्योड़ा रोड़, उत्तर में — प्लॉट न, 441, दक्षिण में — प्लॉट न 444 | (A) ক. 16.83 লাভ<br>(B) ক. 1.69 লাভ | पूर्वीह 11.00<br>बजे से अपींह                 |                                 |
| ۱  |   | (G) रु. 21.40 लाख + ब्याज एवं प्रमार इत्यादि   |  | (C) v. 10,000/-                     |   |                                 |
|    |   | (H) भौतिक  |  |                                     | 04.00 बजे                                     |                                 |
|    | জী टी খাঁড (018000)   | (E) 26/12/2019   | साम्यिक बंधक सी-83/12, ब्लॉक-सी, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 89.98 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती सुरेंद्री देवी के नाम पर है। वीहरी पूरव   |                                     | 23-07-2024                                    | ज्ञात नहीं                      |
|    | श्रीमती सुरेंद्री देवी पत्नी श्री कृष्णा, सी—83 / 12 ब्लॉक—सी गोविदपुरम गाजियाबाद, <u>और:</u><br>629 इंदरगढ़ी डासना देहात गाजियाबाद—201015  | (F) 17/03/2020   |  | (B) रु. 6.33 लाख                    | पूर्वाह 11.00<br>बजे से अपीड<br>04.00 बजे     |                                 |
| 1  |   | (G) रु. 39.72 लाख + ब्याज एवं प्रमार इत्यादि   |  | (C) ₹. 25,000/-                     |   |                                 |
|    |   | (H) सांकेतिक   |  | (6) 1. 23,0001-                     | meno act                                      |                                 |
|    | जी टी रोड(018000)   | (E) 10/12/2019   | साम्यिक बंधक प्लॉट नं. 179, ब्लॉक – बी, द्वितीय तल, शालीमार गार्डन एक्स.–2, साहिबाबाद, गाजियाबाद में रिधत, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मी  |                                     | 23-07-2024                                    | ज्ञात नहीं                      |
| ı  | श्री शैलेन्द्र रंजन पुत्र नागेन्द्र प्रसाद, श्रीमती अनुपम रंजन पत्नी श्री शैलेन्द्र रंजन  | (F) 14.02.2020   |  | (B) ਝ. 6.20 ਕਾਰ                     | पूर्वीक्त 11.00<br>बजे से अपीक<br>04.00 बजे   |                                 |
| П  |   | (G) रु. 43.79 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि   |  | (C) ₹ 10,000/-                      |   |                                 |
|    |   | (H) सांकेतिक   |  |                                     | 04.00 401                                     |                                 |
| ;  | जी टी रोड (018000)  | (E) 12.11.2021   | पलैट नं. 1802, 18वां तल, ब्लॉक-ई "प्रोय्यू लबोनी", प्लॉट नं. जीएच-06, क्रासिंग रिपब्लिक, एनएच-24, डूंडाहेडा, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल  |                                     | 23-07-2024                                    | ज्ञात नहीं                      |
|    | श्री रफाकत अली पुत्र श्री पश्वेज खान (ठघारकर्ता), पताः पलैट नं, 1602, 16वां तल,<br>ब्लॉक-ई, "प्रोव्यू लैबोनी" प्लॉट नं, जीएच-06, क्रॉसिंग रिपब्लिक, एनएच-24 डूंडाहेडा,  | (F) 02.11.2022   | 156,07, यह सम्पत्ति श्री रफाकत अली / श्री लियाकत अली के नाम पर हैं।  | (A) ক. 60.22 লাজ<br>(B) ক. 6.03 লাজ | पूर्वाह 11,00<br>बजे से अर्पाह<br>04,00 बजे   |                                 |
|    |   | (G) रु. 33.06 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि   |  |                                     |   |                                 |
|    | गाजियाबाद, यू.पी. पताः के-98, प्रथम तल, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद, उ.प.<br>श्री लियाकत अली पुत्र श्री परवेज खान (सह-उधारकर्ता), पताः फ्लैट नं. 1602, 16वां<br>तल, ब्लॉक-ई, "प्रोव्यू लैबोनी" प्लॉट नं. जीएच-06, क्रॉसिंग रिपब्लिक, एनएच-24<br>बुंडाहेडा, गाजियाबाद, यू.पी., पताः के-98, प्रथम तल, सेक्टर-12, प्रताप विहार, | (H) सांकेतिक   |  | (C) vs. 10,000/-                    |   |                                 |

गाजियाबाद, च.प्र. ई—नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : (1) बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (2) सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (3) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है. किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी बुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (4) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (5) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें। (6) सभी सांविधिक बकाया / अटेंडेंट शुल्क / पंजीकरण शुल्क, स्टाप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्रहणाधिकार साविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के सबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, 9971720088, (प्राधिकृत अधिकारी), पंजाब नैशनल बैंक



सही /

प्राधिकत अधिकारी. बँक ऑफ बडोदा

NOTICE is hereby given to public at large that Mr. Joyslin Gracious has agreed to sell all his rights in the said property including the levelopment right of the said property viz. Plot of land adms. 285.70 sq.mti bearing CTS No.229 of Village Malwani, Taluka Borivali, MSD, Malwani, Malad (W) Mumbai-400 095 and my client have agreed to Purchase the same, free from al encumbrance.

Any person having any claim/interest/right in respect of the said property by way of inheritance, share, sale, mortgage, lease, lien, licence, gift, possession o encumbrance howsoever or otherwise i hereby required to intimate to the undersigned within 14 days from the date of publication of this notice of his/her/their such claim, if any, with all supporting documents failing which the transaction shall be completed without reference to such clain and the claims, if any, of such person shall be treated as waived and not binding on m

Dated this 21st day of June, 2024.

MR. MANOJ PANDEY Advocate High Court 308. Business Classic Chincholi Bunder Road, Malad (W), Mumbai-400 064

### IN THE COURT OF SMALL CAUSES AT MUMBAI R.A.D. SUIT NO. 191 OF 2024

Harish Jamanadas Madiyar, age 49 yrs., Occ.: Business, Residing at, 69/D, Room No. 23 Ground Floor. Shree Cutchi Lohana Niwas Shivdas Champsi Marg, Opp. Sales Tax Office, Mazgaon, Mumbai-400 010 Currently residing at Room No.1/A, Ground Floor, Purshottam Wadi, Plot No.434, Swatantrya Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025

Versus

Versus

1) Kukreja Construction Co.
Through its Director/Partner/Proprietor,
Having its office at, "Laalasis", Plot No.219, 11th Road, Chambur. Mumbai-400 071 2) Mahendra Hridaynarayan Pandey Age-45, Occ.: Business Currently residing at.) Plot No.434, Purshottam Wadi, Swatantrya) Veer Savarkar Marg, Prabahdevi, Mumbai 400 025)

The Defendant No. 2 abovenamed

WHEREAS, the Plaintiff abovenamed has in-tituted the above suit against the Defendants praying therein that this Hon'ble Court be pleased o declare that the Plaintiff is the lawful tenant of the suit premises Room No.1 A. Ground Floor, Purshottam Wadi, Plot No.434, Swatantrya Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025 admeasuring around 70 sq. ft. And also that this Hon'ble Court be pleased to order and direct the Defendant No.1 to accept the rent of the suit premises Room No.1/A. Ground Floor. Purshottam Wadi, Plot No.434. Swatantrya Veer Savarkar Marg. Prabhadevi, Mumbai 400 025 admeasuring 70 sq. ft. being a new landlord of the suit property, and for such other and further reliefs, as prayed in the Plaint. You are hereby summoned to file your Writter

Statement within 30 days from service of sumons and to appear before the Hon'ble Judge residing in Court Room No.15, 5th Floor, Annex Building, Court of Small Causes, L. T. Marg. Mumbai 400 002, in person or by authorized Pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to suit or who shall be accompanied by some other person able to nswer all such questions on 27th June, 2024 at 2.45 p. m.. to answer the above Plaint, and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the suit, you must be prepared to produce all your witnesses on that day and you will bring with you or send by your Pleader. any documents on which intend to reply in support of your defence and you are hereby required to take notice that in default of filing Written Statement, or your appearance on the day before mentioned, the suit will be eard and determined in your absence You may obtain the copy of the said Plaint fro Court Room No.15 of this Court.

Given under Seal of the Court, this 19th day of April, 2024 Registrar.

#### राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणासमोर मंबर्ड खंडपीठ सी.ए. (सीएए)/२५/एमबी/२०२४ शी संबंधित

सी.पी. (सीएए)/९७/एमबी/२०२४ कंपनी अधिनियम, २०१३ (१८ सन २०१३) च्या प्रकरणात;

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २३० ते २३२ आणि इतर प्रयोज्य तरतुदी आणि वेळोवेळी प्रचलित त्या अंतर्गत स्थापित नियमांच्या प्रकरणाः आणि

पवन डायनॅमिक्स प्रा. लि., पहिली हस्तांतरक कंपनी: ब्रॅडी एअर प्रायव्हेट लिमिटेड, दूसरी हस्तांतरक कंपनी सह ब्रॅडी इस्टेट प्रायव्हेंट लिमिटेड तिसरी हस्तांतरिर्त कंपनीच्या एकत्रिकरणाच्या योजनेच्या

प्रकरणात

पवन डायनॅमिक्स प्रा. लि., कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत स्थापित कंपनी, जिचे नोंदणीकृत कार्यालय आहे ब्रॅडी हाऊस, ४था मजला, १२/१४, वीर नरिमन रोड, फोर्ट, बाजारगेट, मुंबई-४००००१.

...याचिकाकर्ता कंपनी १/ पहिली हस्तांतरक कंपनी

ब्रॅडी एअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत स्थापित कंपनी, जिचे नोंदणीकृत कार्यालय आहे ब्रॅडी हाऊस, ४था मजला, १२/१४, वीर नरिमन रोड. फोर्ट. बाजारगेट, मुंबई-४००००१. ..याचिकाकर्ता कंपनी २/

दसरी हस्तांतरक कंपनी ब्रॅडी इस्टेटस् प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत स्थापित कंपनी. जिचे नोंदणीकत कार्यालय आहे ब्रॅडी हाऊस. ४था मजला. १२/१४. वीर नरिमन रोड, फोर्ट, बाजारगेट, मुंबई-४००००१.

...याचिकाकर्ता कंपनी ३/ हस्तांतरिती कंपनी

याचिकेची सूचना

सूचना घ्यावी की, पवन डायनॅमिक्स प्रा. लि., पहिली हस्तांतरक कंपनी; **ब्रॅडी एअर** प्रायव्हेट लिमिटेड, दुसरी हस्तांतरक कंपनी सह ब्रॅडी इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड तिसरी हस्तांतरिती कंपनी आणि त्यांच्या संबंधित भागधारकांच्या एकत्रिकरणाच्या योजनेच्या प्रकरणात समाविष्ट प्रस्तावित योजनेच्या मंजरी आदेशाकरिता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २३० ते कलम २३२ आणि इतर प्रयोज्य तरतृदींच्या अंतर्गत याचिका याचिकाकर्त्या कंपन्यांद्वारे सादर करण्यात आली आणि ०५ जून, २०२४ रोजी सदर सन्माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठाद्वारे दाखल करण्यात आली होती आणि १६ जुलै, २०२४ रोजी सुनावणीकरिता निश्चित करण्यात आली

जर तम्ही सदर याचिकेला विरोध करण्यास इच्छुक असाल तर तुम्ही याचिकेच्या सुनावणीकरिता निश्चित केलेल्या तारखेपूर्वी किमान दोन दिवस अगोदर तुमच्या किंवा तुमच्या विकलांद्वारे सही केलेली तुमच्या हेतूची याचिकाकर्त्यांच्या प्राधिकृत प्रतिनिधींकडे पाठवु शकता. विरोधांची पार्श्वभूमी किंवा शपथपत्राची प्रत अशा सूचनेसह

पाठविणे आवश्यक आहे. याचिकेची प्रत कोणाही व्यक्तीला आवश्यकता असल्यास त्यासाठी विहित प्रभार प्रदान केल्यावर याचिकाकर्त्यांच्या प्राधिकत प्रतिनिधींद्वारे प्रविण्यात येईल.

सदर दिनांक २० जन. २०२४ जीएमजी ॲण्ड असोसिएटस करिता कंपनी सेक्रेटरीज

> सीएस महेश सोनी याचिकाकर्त्यांकरिता प्राधिकृत प्रतिनिधी वास्तु दर्शन, ३रा मजला. आझाद लेन. अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००६९. टिकाण : मुंबई ईमेल: maheshsoni@gmj.co.ii दिनांक : जून २०, २०२४

सही/-

### TAVERNIER RESOURCES LIMITED

Ancillary Ind Estate, Govandi, Mumbai - 400043 | CIN: L51909MH1994PLC193901 Contact: 8879382912 | E-mail ID: tavernier.resources@gmail.com

PUBLIC NOTICE CUM CORRIGENDUM TO THE DPS AND PRE-OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 15.54.540 EQUITY SHARES REPRESENTING 26.00% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF TAVERNIER RESOURCES LIMITED, BY THE ACQUIRER PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER" This public notice ("Notice") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited, the Manager to the offer ("Manage to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer.

This is to bring to the notice of Public Shareholders that the dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders of Tayernie Resources Limited was completed on June 06, 2024, through email and speed post. Those Public Shareholders who have not received the Letter of Offer through email or speed post may download the same from website of SEBI at www.sebi.gov.in website of BSE at www.bseindia.com or website of the Manager to the Offer at www.vivro.net. The date of Public Announcement mentioned at point no. VIII (Tentative Schedule of Activity) of the DPS, Page 2 (Schedule

of Major Activities of the Offer) of the DLOF and in the first paragraph and at point no. 8 (Schedule of Activities) in the Pre-offer Advertisement which was published in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Navshakti (Marathi) (Mumbai Edition) on Thursday, June 13, 2024 should be read as February 23, 2024 instead of February 23, 2023.

Public Shareholder having any queries regarding Open Offer or for requirement of physical copy of LOF may contact Registrar to the Offer or Manager to the Offer.

Registrar to the Offer Link Intime India Private Limited

**LINK**Intime

C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083,  $Maharashtra, India. \mid \textbf{Tel. No.:} +91-8108114949$ Email: tavernier.offer@linkintime.co.in | Website: www.linkintime.co.ir

SEBI Reg. No.: INR000004058 | Contact Person: Pradnya Karanjekar Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

**Vivro Financial Services Private Limited** Address: Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India. | Tel No.: 079-4040 4242 Website: www.vivro.net | Email: investors@vivro.net

SEBI Reg. No. MB/INM000010122 | Contact Person: Shivam Patel

Capitalized terms used but not defined in this public notice shall have the meaning assigned to such terms in the LOF. Date: June 20, 2024

Place: New Jersey, USA **Amit Vedawala** 

#### बीएसई लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालयः २५ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- ४००००९ बूरध्वनी: ०२२ २२७२ १२३३/३४

CIN: L67120MH2005PLC155188 वेबसाइट: www.bseindia.com • इमेल: bse.shareholders@bseindia.com



h2

#### एकोणिसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई- मतदान माहितीची सूचना

यादारे सचना देण्यात येत आहे की बीएसई लिमिटेड (कंपनी)ची एकोणिसाव्या वार्षिक सर्वासाधारण सभा (एजीएम) सोमवार दिनांक १५ जुलै २०२४ रोजी दुपारी ३:०० वाजता (आयएसटी) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ इतर माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामका ार पॉडण्यासाठी कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. 20/2020, 2/2022, 10/2022 ऑणि 9/2023 आपि सेक्यरिटीज ॲंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने जारी केलेल्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक ५ जानेवारी २०२३ व SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२३ च्या अनुषंगाने (यानंतर एकत्रितरित्या परिपत्रके असे संबोधित) नुसा

परिपत्रकांनसार ज्या समभागधारकांचे इमेल पत्ते कंपनीचे रजिस्टार आणि टान्सफर एजंट केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (आरटीए) / डिपॉझिटर्र पार्टिसिपंट यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत<sup>े</sup> अशा समभागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वर्ष २०२३-२४ च्या वार्षिक अहवालासोंबत एजीएमच सूचना पाठवण्यात आले आहेत. कंपनीचा वार्षिक अहवाल एजीएमच्या सूचने सोबत कंपनीच्या वेबसाइटवर <u>https://www.bseindia.com</u> investor\_relations/annualreport.html, येथे <u>www.nseindia.com</u> (जिथे कंपनी नोंदणीकृत आहे) आणि <u>www.evotingindia.com</u> (ई मतदान सुविधा देणारी एजन्सी) ("वेबसाइट्स") उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८, (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोज . क्वायरमेंट्स) अधिनियम २०१५ चे अधिनियम ४४ च्या अंतर्गत कंपनीने एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठराव मंजूर करण्यासाठी ई-मतदान विधा उपलेब्ध केली आहे. कंपनी ई-मतदान तसेच एजीएमच्या दरम्यान ई-मतदान करण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडकडून मतदान सेवा पुरवणार आहे. जे सभासद कंपनीच्या अंतिम तारखेला म्हणजे सोमवार दिनांक ८ जुलै २०२४ रोजी कंपनीचे समभाग धारण कर . भसतील फक्त अशा सभासदांना ई-मतदान तसेच एजीएमदरम्यान ई-मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.

सदांनी व्हीसी/ ओएव्हीएम सुविधा आणि ई-मतदानासाठी खालील तपशिलांची नोंद घ्यावी:

| П |                            |   |  |  |  |
|---|----------------------------|---|--|--|--|
|   | रिमोट ई- मतदानाला प्रारंभ: | शुक्रवार, १२ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ९:०० पासून (स.)   |  |  |  |
|   | रिमोट ई- मतदान समाप्त:     | रविवार, १४ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता (सां) |  |  |  |

न्यानंतर सीडीएसएलकडून रिमोट ई मतदान सुविधा बंद केली जाईल आणि सदस्यांना दिलेल्या तारीख आणि वेळेनंतर ई मतदान करता येणार नाही. वरील बाबींखेरीज अंतिम तारखेला समभाग धारण करणाऱ्या, रिमोट ई मतदानाद्वारे एजीएमपूर्वी मतदान केलेले नाही अशा सदस्यांसाठी ई-मतदानाच सविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल. ई-मतदानाच्या तपशीलवार सूचना एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत.

अंतिम तारखेनुसार असलेल्या सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून व्हीसी / ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध सहभागी होण्यांची विनंती केली जात आहे. संदस्य दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये सहभागी आणि उपस्थित होउ शकतात परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

कोणतीही व्यक्ती सदर सूचना जारी करण्यात आल्यानंतर कंपनीची सदस्य झाल्यास आणि कट ऑफ दिनांकास समभाग धारण करत असल्यास अ सभासद उक्त निर्देशित वेबसाइटवरून सूचना डाऊनलोड करू शकतात आणि सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे व्हीसीद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहन ई-मतदान करू शकतात.

ई-मतदानासंबंधी कोणतेही प्रश्न आणि/ किंवा तक्रार असल्यास समभागधारक <u>www.evotingindia.com</u> या सीडीएसएल वेबसाइटच्या माहित विभागांतर्गत वारंवार विचारलेले प्रश्न (एफएक्यू) पाहू शकतात किंवा श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफर्तलाल मिल कंपाऊंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळी (पूर्व), मुंबई- ४०००१३ योच्याशी संपर्क सार शकतात किंवा <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> येथे इमेल पाठवू शकतात तसेच कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी १८०० २२ ५५ ३३ या टोलमुत्त

कंपनीने एजीएममध्ये सदस्यांनी दिलेल्या मंजुरीच्या सापेक्ष आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी जाहीर करण्यात आलेला १५/- 🛭 रूपये अंतिम लाभांशासाट सदस्यांचे हक्क निश्चित करण्यासाठी शुक्रवार दिनांक १४ जून २०२४ ही रेकॉर्ड तारीख निश्चित केली आहे.

> संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये बीएसई लिमिटेडकरीता स्वाक्षरी/-विशाल भट

स्थान : मंबर्ड कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

दिनांक : २१ जून २०२४

SHRIRAM श्रीराम ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सीआयएन : एल६५९९१एमएच१९९४पीएलसी०७९८७४ नोंदणीकृत कार्यालय : २१७, २रा मजला, स्वास्तिक चेंबर्स, एस.टी. आणि सी.एस.टी. रोड जंक्शन जवळ, चेंबुर, मुंबई – ४०००७१. इमेलः srmf@shriramamc.in वेबसाईटः www.shriramamc.in

#### ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंबधी सूचना आणि ई-मतदान

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्याची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरूवार, दिनांक १८ जुलै २०२४ रोजी दुपारी ४.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर दूकश्राव्य माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) कंपनी कायदा, २०१३ मधील इतर लागू तरतुदी आणि त्या अंतर्गत करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंगची जबाबदारी व प्रकटिकरणाची आवश्यकता) नियम २०१५, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने जारी केलेले सर्वसाधरण परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ (एमसीए परिपत्रके) आणि सिक्युरिटिज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलेले परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–२/पी/सीआयआर/२०२३/१६७ दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२३ (सेबी परिपत्रके) सभेच्या ठिकाणी सभासदांच्या शारीरिक उपस्थितीशिवाय एजीएम च्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी घेण्यात येईल.

प्रॉक्सीची नेमणूक आणि सदस्यातर्फे मतदान करण्याची सुविधा या एजीएम मध्ये उपलब्ध नसेल.

सभासदांना वार्षिक अहवालासोबत एजीएम ची सुचना दिनांक २० जन २०२४ रोजी पूर्वा शेअररजिस्ट्र (इंडिया) प्रायवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार व समभाग हस्तांतरण एजंट्स आरटीए आणि डिपॉझिटरीज योंच्याकडे ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना ईमेलद्वारे पाठवले गेले आहेत आणि एमसीए च्या परिपत्रकानुसार आणि सेबी ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कंपनी बेबसाईट www.shriramamc.in आणि बीएसई लिमिटेड ची वेबसाईट www.bseindia.com वर उपलब्ध असेल. ३०व्या एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या वेबसाईट www.evotingindia.com वर सुद्धा उपलब्ध असेल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ सह कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अमेंडमेंट नियम, २०१५ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) विनियम, २०१५ च्या विनियम ४४ च्या पूर्ततेने कंपनी सदस्यांना एजीएम च्या सूचनेत नमुद केल्याप्रमाणे इलेक्ट्रानिक पद्धतीने (ई–मतदान) करण्याची सुविधा पुरवित आहे.

कंपनीच्या ई—मतदान प्रक्रियेचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पुर्ततेसाठी एस.जी. असोसिएटस् , प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीचे प्रोप्रायटर श्री सुहास एस. गणपुले (सी.पी. ५७२२) यांची छाननीकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे.

ई–मतदानासंबंधी सविस्तर माहिती एजीएम च्या सुचनेत देण्यात आली आहे. सदस्यांनी खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी:-

- ज्या सदस्यांची नावे सभासंदांच्या रजिस्टरमध्ये अथवा लाभदायी धारकाच्या रजिस्टर मध्ये आणि डिपॉझिटरीज (इलेक्ट्रॉनिक समभाग धारणेच्या बाबतीत) गुरुवार, दिनांक ११ जुलै २०२४ म्हणजेच कट—ऑफ तारखेस नोंदविले गेले आहे ती व्यक्ती सीडीएसएल द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. ह्या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी एजीएम
- रिमोट ई–मतदानाचा कालावधी रविवार, दिनांक १४ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि बुधवार, दिनांक १७ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता समाप्त होईल. ह्या कालावधील कंपनीचे पात्र भागधारक जे भौतिक अथवा डिमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात समभागधारक असतील ते त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदवू शकतील. सदरहू तारखेच्या व वेळेच्या नंतर रिमोट ई-मतदानाची परवानगी दिली जाणार नाही
- 🔹 जे सदस्य एजीएम मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा उपस्थित असतील , आणि ज्यांनी रिमोट ई–मतदानाने मतदान केले नसेल तेच सदस्य एजीएममध्ये ई–मतदान करू शकतील, ज्या सदस्यांनी रिमोट ई–मतदानाद्वारे मतदान केले आहे ते सदस्य एजीएममध्ये उपस्थित राहण्यास पात्र असतील तरीही ते बैठकीत मतदान करण्यास पात्र नसतील. एजीएम दरम्यान उपस्थित सदस्याद्वारे ई–मतदानाद्वारे मते दिली गेली असतील आणि जर त्याच सदस्यांनी व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधाद्वारे बैठकीत भाग घेतला नसेल तर अशा सदस्यानी दिलेली मते अवैध मानली जातील. सभेच्या वेळी ई-मतदान केवळ बैठकीस उपस्थित असलेल्या सदस्यासाठी उपलब्ध आहे.
- कंपनीद्वारे एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीनंतर ज्या व्यक्ति ज्यांनी कंपनीचे समभाग प्राप्त केले आहेत आणि ज्यांची नावे कट—ऑफ तारखेस म्हणजेच गुरूवार, दिनांक ११ जुलै २०२४ रोजी सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा लाभदायी धारकांच्या रजिस्टरमध्ये आली आहेत ते सदर सभासद एजीएम ला मतदानाद्वारे अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदाना अंतर्गत एजीएम च्या सूचनेत नमूद कार्यपद्धती अनुसरून रिमोट ई–मतदानासाठी लागणारा लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतील व त्याद्वारे ई–मतदानाद्वारे त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजाव शकतील
- 🕨 डिमटिरिअलाईज्ड समभाग धारकांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे ईमेल ॲड्रेसेस नोंदणी/सुधारणा संबंधीत डीपीकडे करावी. छापील स्वरूपातील समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी त्यांचे ईमेल ॲड्रेसेस नोंदणी करण्याकरिता फॉर्म आयएसआर-१ आणि इतर संबंधीत फॉर्म कंपनीच्या आरटीए कडे जमा करावे. तसेच हे फॉर्म त्यांच्या आरटीएच्या संकेतस्थळावर अर्थात https://purvashare.com/faqs येथे उपलब्ध आहेत. ह्या प्रक्रिये नंतर सदस्यांना वार्षिक अहवाल २०२३-२०२४ एजीएमच्या सूचनेसह ई- मतदानाची माहिती आणि व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये सहभागा संबंधीची इलेक्टॉनिक प्रत प्राप्त होईल.

इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही शंका तक्रारी बाबत सदस्यांनी खालील पत्त्यावर संपर्क करावा श्री . राकेश दळवी सिनियर व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, मॅरेथॉन फ्युच्युरेक्स, 'अे ' विंग, २५वा मजला, एन. एम. जोशी मार्ग, मुंबई – ४०००१३, संपर्क क्र. १८००२२५५३३, ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com

श्रीराम ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

स्वाक्षरी रिना यादव कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

झोनल स्ट्रेस्ड् ॲसेट रिकव्हरी शाखाः मेहेर चेंबर, तळ मजला, डॉ. सुंदरलाल बेहल मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ००१ दरध्वनी : ०२२-४३६८३८०३, ४३६८३८०८, ई-मेल: armbom@bank

परिशिष्ट ।४-ए [ नियम ८(६) च्या तरतुर्दी ]

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रुल्स, २००२ च्या नियम ८(६)च्या तरतुदी सहवाचता सिक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेट्स ॲण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट

ॲक्ट, २००२ अन्वये स्थावर मिळकतीच्या विक्रीसाठीची ई-लिलाव विक्री सूचना. याद्वारे सामान्य जनतेस आणि विशेषतः कर्जदार, गहाणदार आणि हमीदार यांना सूचना देण्यात येते की, खालील वर्णिलेली स्थावर मिळकत तारण धनकोंकडे गहाण/प्रभारित आहे जिचा कब्जा बँक ऑफ बडोदा, तारण ानकोच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. त्या खालील नमूद तारण खात्यामधील तारण धनकोंच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी ''जे आहे जेथे आहे'', ''जे काही आहे तेथे आहे'' आणि विनाअंवलब तत्वाने

| विकण्यात येणार आहे. कर्जदार/गहाणदार/हमीदार/तारण मत्ता/राखीव किंमत/ई-लिलावाची तारीख आणि वेळ, इअर आणि बोली वाढविण्याची रक्कम खाली नमूद केली आहे. |  |   |                       |  |               |   |   |  |
|--|--|---|-----------------------|--|---------------|---|---|--|
| अ.<br>क्र.   | खात्याचे नाव आणि कर्जदार /<br>हमीदारांचा पत्ता | ,<br>स्थावर मिळकर्तीचे वर्णन सह भार<br>काही असल्यास | एक्ण थकबाकी           | १. ई-लिलावाची तारीख<br>२. ई-लिलावाची ची<br>वेळ सुरूवाती वेळ पासून<br>समाप्ती ची वेळ पार्वत<br>३. बोली जमा करण्याची<br>शेवटची तारीख आणि | -             | <ul><li>१) इअर ठेव खाते</li><li>क्र.</li><li>२) आयएफएससी</li><li>कोड</li><li>३) बँक ऑफ</li><li>बडोदा गाखा</li></ul> | १. ताब्याचे<br>प्रकार<br>(अन्वयिक/<br>प्रत्यक्ष)<br>२. मिळकत<br>तपसणी तारीख |  |
|  |  |   |                       | वेळ  | रक्कम         | वडादा शाखा  | ३. वेळ  |  |
| १  | श्री. जयेश शाह                                 | फ्लॅट क्र. ५०२, २४०० चौ.फूट                         | २०.०६.२०२४ रोजीस      | १) ०९.०७.२०२४  | १) रु. ६५२.०० | १)  | १. प्रत्यक्ष  |  |
|  | श्री. निलेश शाह                                |   |                       | २) दु. १३०० ते   | लाख           | ०३८३०२००००१२३   | ۶.  |  |
|  | श्री. वात्सल शाह                               | पॅलेस आय विंग सीएचएसएल,                             | अधिक त्यावरील         | दु. १५००   | २) रु. ६५.२०  | १   | 0२.0७.२०२४  |  |
|  | श्री. झेनिल शाह                                | सर्व्हे क्र. २४९, हिस्सा क्र. ३                     | कायदेशीर प्रभार, अन्य | ३) १५.०६.२०२४ आणि  | लाख           | ۲)  | ३. स.११.०० ते   |  |
|  | सौ. नीता शाह                                   | (भाग) आणि सीटीएस क्र.                               | प्रभार अधिक           | १७.००  | ३) रु. २.००   | बीएआरबी०बीएएलबी   | दु. ०१.००   |  |
|  | सौ. पारु शाह                                   | १९५/३/ए, वल्लभ बाग, लेन                             | व्याज/परिव्यय         |  | लाख           | ओएम   |   |  |
|  | फ्लॅट क्र. १३०१-१३०२, कालींदी सीएचएस, ७ वा     | एक्स्टे., गारोडीआ नगर,                              |                       |  |               | (पाचवे अक्षर शून्य)   |   |  |
|  | मजला, नीळकंठ व्हॅली, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ७७ | घाटकोपर पूर्व, मुंबई ४०००७७                         |                       |  |               | ३) बॅलार्ड इस्टेट   |   |  |
|  | मे. रसिकलाल संकलचंद ज्वेलर्स प्रा. लि.         | बँकेला ज्ञात बोजा: निर्वाह/                         |                       |  |               | खाते नाव: एआरएमबी   |   |  |
|  | दुसरा मजला, एम जी रोड, पूजा हॉटेल समोर,        | सोसायटी थकीत  |                       |  |               | वसूली विभाग   |   |  |
|  | घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ७७                      | रु. २६,०९,६११/-                                     |                       |  |               |   |   |  |
| _  |  | 1   |                       | I.   |               |   | 1   |  |

विक्रीच्या तपशीलवार अटी आणि शर्तीकरिता कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm आणि https://bob.auctiontiger.net/EPROC/ संभाव्य बोलीदार दूर क्र. ०२२-४३६८३८०३-१३ मोबाईल क्र. ९१५२९४११०१ वर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना सुद्धा संपर्क करू शकतात.

दिनांक : २०.०६.२०२४

ठिकाणः मंबर्ड

**AJANTA PHARMA LIN** 

Registered Office: 'Alanta House', 98 Goyt Industrial Area, Charkop, Kandiyli (West), Mumbai - 400 067, Maharashtra, India Phone: +91 22 6606 1000 | Fax: +91 22 6606 1200 | Corporate Identity Number (CIN): L24230MH1979PLC022059 Email: investorgrievance@ajantapharma.com | Website: www.ajantapharma.com Contact Person: Mr. Gaurang Shah, Company Secretary & Compliance Officer

POST BUY-BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF AJANTA PHARMA LIMITED ("THE COMPANY")

This Post Buy-back Public Announcement ("Post Buy-back Public Announcement") is released in compliance with the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buy-back Regulations"). This Post Buy-back Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated May 04, 2024 published on May 06, 2024 ("Public Announcement") and Letter of Offer dated June 01, 2024 ("Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buy-back Public Announcement shall have the same meaning as assigned to such terms in the Public Announcement and the Letter of Offer

#### The Buy-back

- 1.1. The Company had announced the Buy-back of up to 10,28,881 (Ten Lakhs Twenty Eight Thousand Eight Hundred & Eighty One) fully paid-up equity shares of ₹ 2/-(Rupees Two Only) each ("Equity Shares"), representing 0.82% of the total number of Equity Shares of the Company, from the shareholders / beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date i.e. Thursday, May 30, 2024 ("Record Date"), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" process at a price of ₹ 2,770/- (Rupees Two Thousand Seven Hundred and Seventy Only) per Equity Share for an amount not exceeding ₹ 2,85,00,00,370/- (Rupees Two Hundred Eighty Five Crores and Three Hundred Seventy only) excluding costs such as brokerage costs, fees, turnover charges, taxes such as buyback tax, tax deducted at source/tax collection at source, securities transaction tax and goods and services tax (if any), stamp duty, filing fees to SEBI, Stock Exchanges charges, advisors/legal fees, filing fees, Public Announcement and Letter of Offer publication expenses, advertising expenses, printing and dispatch expenses, if any and other incidental and related expenses and charges etc. ("Transaction Costs") (the "Buy-back Size"). The Buy-back size represents 8.34% and 8.03% of the aggregate of the total paid-up capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2024, respectively.
- 1.2. The Buy-back commenced on Wednesday, June 05, 2024 and closed on Tuesday, June 11, 2024 (both days inclusive).
- 1.3. The Company adopted the tender offer process for the purpose of the Buy-back. The Buy-back was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange pursuant to Tender-Offers under Takeovers, Buy Back and Delisting" notified by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/ CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015, read with the SEBI's circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, SEBI circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/ CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 8, 2023 as amended from time to time. For the purposes of the Buy-back, National Stock Exchange of India Limited was the designated stock exchange.
- Details of Buv-back
- . The total number of Equity shares bought back by the Company in the Buy-back were 10,28,881 (Ten Lakhs Twenty Eight Thousand Eight Hundred & Eighty One Only) Equity Shares, at a price of ₹ 2,770/- (Rupees Two Thousand Seven Hundred And Seventy Only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buy-back is ₹ 2,85,00,00,370/- (Rupees Two Hundred Eighty Five Crores and Three Hundred Seventy only) excluding Transaction Costs.
- 2.3. The Registrar to the Buy-back i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered a total of 89,340 valid bids for 6,05,46,567 Equity Shares in response to the Buy-back, resulting in the tender of approximately 58.85 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

|   | Category   | No. of Equity Shares reserved in the Buy-back | No. of Valid Bids | Total Equity Shares<br>Validly Tendered | % Response |  |
|---|--|---|-------------------|---|------------|--|
|   | Reserved Category for Small Shareholders   | 1,54,333                                      | 85,896            | 4,37,128                                | 283.23     |  |
|   | General Category for all other Equity Shareholders   | 8,74,548                                      | 3,444             | 6,01,09,439                             | 6,873.20   |  |
|   | Total  | 10,28,881                                     | 89,340            | 6,05,46,567                             | 5,884.70   |  |
| 1 | All valid hids were considered for the number of acceptance in accordance with the Ruw back Regulations and the terms set out in the Letter of Offer The |   |                   |   |            |  |

- communication of acceptance/rejection has been sent electronically by the Registrar to the Eligible Equity Shareholders on Wednesday, June 19, 2024.
- 2.5. The settlement of all valid bids was completed by NSE Clearing Limited ("Clearing Corporation") on Wednesday, June 19, 2024. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy-back. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank(s), due to any reason, then the amount payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Members' settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders
- 2.6. Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy-back were transferred to the Company's demat account on Wednesday, June 19, 2024. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned / unblocked to respective demat account of Eligible Shareholder / lien removed by the Clearing Corporation on Wednesday, June 19, 2024.
- 2.7. The extinguishment of 10,28,881 (Ten Lakhs Twenty-Eight Thousand Eight Hundred & Eighty One) Equity Shares is currently under process and shall be completed
- on or before Friday, June 28, 2024. Capital Structure and Shareholding Pattern
- 3.1. The Pre and Post Buy-back capital structure of the Company is as under:

| Sr. No. | Particulars   | Amount (₹ in lakhs) |
|---------|---|---------------------|
| Α       | AUTHORISED SHARE CAPITAL                              |                     |
|         | 15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 2/- each              | 3,000.00            |
| В       | ISSUED CAPITAL PRE BUY-BACK                           |                     |
|         | 12,66,83,155 <sup>^</sup> Equity Shares of ₹ 2/- each | 2,533.66            |
| C       | SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL PRE BUY-BACK           |                     |
|         | 12,59,16,655 ^ Equity Shares of ₹ 2/- each            | 2,518.33            |
| D       | TOTAL PAID UP SHARE CAPITAL BEFORE THE BUY-BACK       | 2,518.33            |
| E       | ISSUED CAPITAL POST BUY-BACK*                         |                     |
|         | 12,56,54,274 <sup>^</sup> Equity Shares of ₹ 2/- each | 2,513.08            |
| F       | SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL POST BUY-BACK*         |                     |
|         | 12,48,87,774 <sup>^</sup> Equity Shares of ₹ 2/- each | 2,497.76            |
| G       | TOTAL PAID UP SHARE CAPITAL AFTER THE BUY-BACK*       | 2,497.76            |

^ Includes ESOP Allotment of 1.000 shares approved by Nomination and Remuneration Committee Meeting held on May 02, 2024 \*Subject to extinguishment of 10,28,881 (Ten Lakhs Twenty-Eight Thousand Eight Hundred & Eighty-One) Equity Shares accepted in the Buy-back.

3.2. Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buy-back are as under:

| ٠. | 2. Details of English of all of loads from whom Equity of all of the lotter Equity of all of buying state have been accepted affect and buy back are as affect. |   |   |  |   |  |  |
|----|---|---|---|--|---|--|--|
|    | Sr.<br>No.  | Name of the Eligible Shareholder  | Number of Equity Shares<br>accepted under the<br>Buy-back | Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back (%) | Equity Shares accepted as a % of<br>total post Buy-back equity capital<br>of the Company# (%) |  |  |
|    | 1.  | Yogesh M Agrawal, trustee, Yogesh Agrawal Trust                                     | 1,54,891  | 15.05  | 0.12  |  |  |
|    | 2.  | Rajesh M Agrawal, trustee, Rajesh Agrawal Trust                                     | 1,54,891  | 15.05  | 0.12  |  |  |
|    | 3.  | Ravi P Agrawal, trustee, Ravi Agrawal Trust   | 1,43,719  | 13.97  | 0.12  |  |  |
|    | 4.  | Aayush M Agrawal, trustee, Aayush Agrawal Trust                                     | 1,24,740  | 12.12  | 0.10  |  |  |
|    | 5.  | Nippon Life India Trustee Ltd (Multiple Schemes)                                    | 34,769  | 3.38   | 0.03  |  |  |
|    | 6.  | Ganga Exports being represented by Yogesh Agrawal,<br>Rajesh Agrawal & Ravi Agrawal | 31,036  | 3.02   | 0.02  |  |  |
|    | 7.  | Unit Trust of India (Multiple Schemes)  | 30,822  | 3.00   | 0.02  |  |  |
|    | 8.  | Tata AIA Life Insurance Company Limited (Multiple Schemes)                          | 19,312  | 1.88   | 0.02  |  |  |
|    | 9.  | Kotak Funds (Multiple Schemes)  | 12,533  | 1.22   | 0.01  |  |  |
|    | 10.   | HDFC Mutual Fund (Multiple Schemes)   | 11,084  | 1.08   | 0.01  |  |  |
|    |   | Total   | 7,17,797  | 69.76  | 0.57  |  |  |

\*Subject to extinguishment of 10,28,881 (Ten Lakhs Twenty-Eight Thousand Eight Hundred & Eighty-One) Equity Shares accepted in the Buy-back. 3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy-back (as on Record Date i.e. as on Thursday, May 30, 2024) and post the completion of the Buy-back

is as under **Category of Shareholder** Number of % to existing Equity Number of Equity | % to post Buy-back **Equity Shares** Equity Share Capital Shares Promoters and Promoter Group 8,33,73,054 8,27,63,777 66.27 Foreign Investors (including Non-Resident Indians, FIIs and Foreign 1.09.28.484 8.68 Financial Institutions / Banks & Mutual Funds promoted by Banks / 4,21,23,997 33.73 1.87.65.144 14.90 Institutions 1,28,49,973 10.21 Others (Public, Public Bodies Corporate, etc.) 12,59,16,655^ 100.00 12,48,87,774^ 100.00 Total

^ Includes ESOP Allotment of 1,000 shares approved by Nomination and Remuneration Committee Meeting held on May 02, 2024. \* Subject to extinguishment of 10,28,881 (Ten Lakhs Twenty-Eight Thousand Eight Hundred & Eighty-One) Equity Shares accepted in the Buy-back.

SEBI Registration No: INM000010122 | Validity: Permanent

MANAGER TO THE BUY-BACK

**VIVRO** 

**VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED** 607, 608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park, Veer Santaji Lane, Off. Ganpatrao Kadam Marg,  $Lower\ Parel,\ Mumbai-400\ 013,\ Maharashtra,\ India.\ \mid\ \textbf{Tel.:} + 91\ 22\ 6666\ 8040\ /\ +\ 91\ -\ 79\ -\ 4040\ 4242$ Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net Contact person(s): Shivam Patel / Sakshi Porwal

DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

Managing Director

(DIN: 00073673)

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy-back Public Announcement or any other information, advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. This Post Buy-back Public Announcement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Buyback Committee on June 20, 2024. For and on behalf of the Board of Directors of Ajanta Pharma Limited

Yogesh Agrawal

**CIN**: U67120GJ1996PTC029182

Rajesh Agrawal Joint Managing Director (DIN: 00302467)

**Gaurang Shah** Company Secretary & Compliance Officer (Membership Number: F6696)

Sd/-

Date: June 20, 2024 Place: Mumbai, Maharashtra